



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2009/माघ 3, 1930

No. 33]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2009/MAGHA 3, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2009

सं. 17/2009

फा. सं. 394/46/2008 सी. शु. (ए. एस.).—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के नीचे उल्लेख किए गए प्रत्येक अधिकारी को :—

(क) जीवन के जोखिम पर अर्पित की गई असाधारण सराहनीय सेवा, और

(ख) सेवा के विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकार्ड के लिए सम्मान प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं।

(क) जीवन के जोखिम पर अर्पित की गई असाधारण सराहनीय सेवा।

श्री के श्रीनिवासन, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद, क्षेत्रीय यूनिट।

(ख) सेवा का विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकार्ड आयुक्त/अपर महानिदेशक

1. श्री एम. बिनोद कुमार, अपर महानिदेशक, निर्यात संवर्धन महानिदेशालय, नई दिल्ली

2. श्री डी. पी. नगेन्द्र कुमार, आयुक्त, बृहत्त कर दाता यूनिट, बंगलौर

अपर आयुक्त/अपर निदेशक/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक

1. श्री संजीव श्रीवास्तव, निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।

2. श्रीमती सिम्मी जैन, निदेशक (विधि), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।

3. श्री एल. सत्या श्री निवास, प्रथम सचिव (व्यापार), मास्को।

4. श्री संजय श्रीनेत, प्रथम सचिव (व्यापार), भारतीय उच्चायोग, लंदन।

5. श्री एन. के. सिन्हा, अपर निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली।

6. श्री यतिन्द्र कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, जोखिम प्रबंध प्रभाग, मुम्बई।

उप निदेशक/उपायुक्त/सहायक निदेशक/सहायक आयुक्त

1. श्री जॉन साइमन, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर।

मूल्यांकनकर्ता/अधीक्षक/वरिष्ठ आसूचना अधिकारी

1. श्री संजय प्रसाद, मूल्यांकनकर्ता, न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई।

2. श्री एम. एन. चारयुलु, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद।

3. श्री वी. रमेश, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, बंगलौर।

4. श्री जैकब चेरियन, मूल्यांकनकर्ता, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोचीन।

5. श्री के. एम. मोइन, सीमाशुल्क अधीक्षक, मुम्बई एयरपोर्ट।

6. श्री ओ. पी. सिंह, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. श्री आर. एल. थपलियाल, वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली।
8. श्री वी. जी. देसाई, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे।
9. श्री मनोज गर्ग, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली।
10. श्री के. पी. गुन्डेचा, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे।
11. श्री विजय सिंह मीना, जिला अफीम अधिकारी, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

#### निरीक्षक/आसूचना अधिकारी/कर सहायक

1. श्री सी. बी. उन्निकृष्णन, डाटा एंट्री प्रचालक, ग्रेड "घ" कस्टम हाऊस, चेन्नई।
2. श्री वी. गोविन्दम, डाटा एंट्री प्रचालक, ग्रेड "घ" कस्टम हाऊस, चेन्नई।
3. श्री मदन सिंह, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. श्री दीपक ज्याला, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई।
5. श्री अभिजीत दत्ता, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता।
6. श्री प्रमोद रूपचन्द वर्मा, आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद।
7. श्री राकेश मोहन, आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली।
8. श्री गजानन गोपाल लिमये, आसूचना अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, महानिदेशालय, पुणे।
9. श्री विनीत कुमार, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल।
10. श्री एम. वी. श्रीधर, निरीक्षक, बृहत कर दाता एकक, बंगलौर।
11. श्री अनिल कुमार पांडे, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ।

#### ड्राइवर

- श्री सतपाल सिंह, ड्राइवर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली।
2. ये पुरस्कार, समय-समय पर संशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, अधिसूचना सं. 12/139/59 -प्रशा. III (ख) दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने की संचालित स्कीम के पैरा 1 के परिशिष्ट (क)(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

के. रामाकृष्णन, उप-सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2009

No. 17/2009

**F.No. 394/46/2008-Cus(AS).**—The President is pleased to award an Appreciation Certificate for :—

- (A) exceptionally meritorious service rendered at the risk of life and
- (B) specially distinguished record of service to each of the under-mentioned officers of the Customs and Central Excise Department, Central Bureau of Narcotics and the Enforcement Directorate on the occasion of Republic Day, 2009:—

#### A. Exceptionally Meritorious Service Rendered At The Risk Of Life:—

Sh. K. Srinivasan, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit.

#### B. Specially Distinguished Record of Service:—

##### Commissioners/Additional Directors General

1. Sh. M. Vinod Kumar, Additional Director General, Directorate General of Export Promotion, New Delhi.
2. Sh. D.P. Nagendra Kumar, Commissioner, Large Tax Payers Unit, Bangalore.

##### Additional Commissioners/Additional Directors/Joint Commissioners/Joint Directors

1. Sh. Sanjiv Srivastava, Director, Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
2. Smt. Simmi Jain, Director (Legal), Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
3. Sh. L. Satya Srinivas, First Secretary (Trade), Moscow.
4. Sh. Sanjay Srinet, First Secretary (Trade), High Commission of India, London.
5. Sh. N.K. Sinha, Additional Director, Directorate General of Central Excise Intelligence, Hqrs, New Delhi.
6. Sh. Yatindra Kumar Sharma, Joint Director, Risk Management Division, Mumbai.

##### Deputy Directors/Deputy Commissioners/Assistant Directors/Assistant Commissioners

1. Mr. John Simon, Assistant Director, Directorate of Enforcement, Zonal Office, Bangalore.

##### Appraisers/Superintendents/Senior Intelligence Officers

1. Sh. Sanjay Prasad, Appraiser, New Customs House, Mumbai.
2. Sh. M.N. Charyulu, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad.

3. Sh. V. Ramesh, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Bangalore.
4. Mr. Jacob Cherian, Appraiser, Directorate of Revenue Intelligence, Cochin.
5. Sh. K.M.Moeen, Superintendent of Customs, Mumbai Airport.
6. Sh. O.P.Singh, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Hqrs. New Delhi.
7. Sh. R.L.Thapaliyal, Senior Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Hqrs, New Delhi.
8. Sh. V. G.Desai, Superintendent of Central Excise, Pune.
9. Sh. Manoj Garg, Superintendent of Central Excise, Delhi.
10. Sh. K.P.Gundecha, Superintendent of Central Excise, Pune.
11. Sh. Vijay Singh Meena, District Opium Officer, Central Bureau of Narcotics, Chittorgarh.
5. Sh. Abhijit Dutta, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata.
6. Sh. Pramod Roopchand Verma, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad.
7. Sh. Rakesh Mohan, Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Hqrs. New Delhi.
8. Sh. Gajanan Gopal Limaye, Intelligence Officer, Directorate General of Central Excise Intelligence, Pune.
9. Sh. Vineet Kumar, Inspector, Central Excise, Bhopal.
10. Sh. M.V.Sridhar, Inspector, Large Tax Payer Unit, Bangalore.
11. Sh. Anil Kumar Pandey, Inspector, Central Excise, Meerut.

**Driver**

Sh. Satpal Singh, Driver, Central Excise, Delhi.

**Inspectors/Intelligence Officers/Tax Assistant**

1. Sh. C.B. Unnikrishnan, Data Entry Operator, Gr. D, Custom House, Chennai.
2. Sh. V.Govindan, Data Entry Operator, Gr. D, Custom House, Chennai.
3. Sh. Madan Singh, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Hqrs. New Delhi.
4. Sh. Deepak Jyala, Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.

2. These awards are made under clause (a) (ii) of Para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs & Central Excise Department, Central Bureau of Narcotics, Narcotics Control Bureau and Directorate of Enforcement, as published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary, Notification No.12/139/59-Ad.III (B) dated 5th November, 1962, as amended from time to time.

K. RAMAKRISHNAN, Dy. Secy.